

VINAYAK VANIJYA LIMITED

Registered Office: Flat No. 28, Stilt Floor, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi-110019,
Website: www.vinayakvanijya.com, **Phone:** 9079738420, **Email id:** vvanijya1985@gmail.com
CIN: L52110DL1985PLC020109

Date: 12.08.2025

To,
The Head- Listing Compliance
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai-400001

Scrip Code: 512517

Sub: Intimation under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015-Newspaper Publication

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, enclosed please find herewith copies of the Newspaper Advertisement of the Unaudited Standalone Financial Results of the company for the quarter ended 30 June, 2025 as was approved in the Board meeting held on Wednesday, 11th August, 2025 (commenced at 03:00 P.M. and concluded at 05:00 P.M), published in "Business Standard" (English) and in "Business Standard" (Hindi).

This is for your information and record.

Yours Sincerely,
For Vinayak Vanijya Limited

Mukhtar Singh
Wholetime Director
DIN: 06525800

Place: New Delhi

बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda

Regional Stressed Asset Recovery Branch
Baroda Bhawan, 2nd Floor, Plot No. 13, Airport Plaza,
Durgapura, Tonk Road, Jaipur - 302018, Ph: 0141-2727166

REDEMPTION NOTICE
Notice under Rule 6(2) and/or Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Date: 04-07-2025

To: **M/s Gawaichi Products Distributors (Borrower)** Through its Prop. **Shri Shivanshu Gautam S/o Mr. Shiv Shankar Gautam**; Regd. Off. at: Shop No. A-1, Ground Floor, Block-A, B-1304/1305 in Cedar Luxuria, Iskon Road, Plot of Land Kharsa No. 248, 250, 674/252, Village Sukhiya, Tehsil-Sanganar, Distt - Jaipur (Raj.)-302029. Also: Shop No. A-1, Ground Floor, Block-A, Cedar Luxuria, Village Sukhiya, Iskon Road, Jaipur (Raj.)-302029.

Re: **Shivanshu Gautam S/o Mr. Shiv Shankar Gautam (Proprietor)**; Add: B-1304, 1305, Cedar Luxuria, Iskon Road, Mansarovar Extension, Jaipur (Raj.)-302029. Also: Shop No. A-1, Ground Floor, Block-A, Cedar Luxuria, Village Sukhiya, Iskon Road, Jaipur (Raj.)-302029.

Re: **Shivanshu Gautam S/o Mr. Shiv Shankar Gautam (Proprietor)**; Add: B-1304, 1305, Cedar Luxuria, Iskon Road, Mansarovar Extension, Jaipur (Raj.)-302029. Also: Shop No. A-1, Ground Floor, Block-A, Cedar Luxuria, Village Sukhiya, Iskon Road, Jaipur (Raj.)-302029.

Re: **Mrs. Kiran Gautam (Guarantor)**; R/o D-187, Bhanu Marg, Kanti Chandra Road, Bani Park, Behind Sindhi Camp, Jaipur (Raj.)-302016. Also: at Plot No. C-97, Bani Park Extension, Shastri Nagar, Jaipur (Raj.)-302020. Also: at Plot No. C-95/3-A, Road No. 14, V.K.I. Industrial Area, Jaipur (Raj.)-302013

Re: **Notice under Rule 6(2) and/or Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act, 2002).**

Dear Sir/Madam,

Whereas the Authorised Officer of the Bank of Baroda, Branch - Regional Stressed Asset Recovery Branch address Baroda Bhawan 2nd Floor, Plot No 13, Airport Plaza, Durgapura, Tonk Road, Jaipur Rajasthan 302018 being Secured Creditor Bank in exercise of the powers conferred under Section 13(2) of the SARFAESI Act, 2002 (hereinafter referred to as "Act") read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002 (hereinafter referred to as "Rules") issued demand notice dated 19-08-2024 calling upon you being Borrowers (s)/ Mortgagee (s) / Guarantor (s) to repay the amount stated in the said demand notice within 60 days from receipt of said notice.

And whereas you have failed to repay the amount, the undersigned in exercise of the powers conferred u/s 13(4) of the said Act read with Rule 4 and/or Rule 8 of the Rules have taken over the Possession of Secured Assets (hereinafter referred to as the said properties) more particularly described herein below Schedule.

Even after taking possession of the secured asset, you have not paid the amount due to the Bank as mentioned in above Demand Notice. Your attention is invited to the provisions of sub-section (8) of Section 13 of SARFAESI Act, 2002 in respect of time available, to redeem the secured assets. Therefore you are all requested to pay the dues as mentioned in possession notice along with applicable interest, cost, charges & expenses within 30 days from receipt of this notice and redeem the secured asset as mentioned below. In case you fail to pay the above-mentioned dues & redeem the secured asset within 30 days from receipt of this notice, Bank will be constrained to sell the secured asset through public e-Auction by publication of e-Auction Sale notice. The date, time of e-auction and Reserve Price of the property shall be informed to you separately.

Mortgage Particulars: All that part and parcel of the property situated at Shop No. A-1, Ground Floor, Block-A, Cedar Luxuria, Kharsa No. 248, 250, 674/252, Village Sukhiya, Iskon Road, Jaipur (Raj.) / Built-up area 607.94 Square Feets in the name of Mr. Shivanshu Gautam S/o Mr. Shiv Shankar Gautam and Mr. Kiran Gautam and Symbolic possession taken dated 25.11.2024. Also publication in newspaper dated 26.11.2024. Physical possession taken dated 26.06.2025.

Yours faithfully,
Authorized Officer, Bank of Baroda
Branch - ROSARB Jaipur

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, कोडरमा

शुद्धि - पत्र

इस कार्यालय के ज्ञापांक-645, दिनांक-07.08.2025 द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत आमंत्रित अल्पकालीन ई-पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना संख्या-05(RI)/2025-26/RWD/EE/KODERMA, दिनांक-07.08.2025, PR-359202 Rural Work Department(2025-26) से प्रकाशित निविदा को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

हो / -
कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल,
कोडरमा

PR 359312 Rural Work Department(25-26)#D

विक्रम विश्वविद्यालय
उज्जैन

क्रमांक/मपडार/2025/197 दिनांक : 08.08.2025

Photocopier Machine Large and Multifunctional printers क्रय हेतु ई-निविदा वर्ष-2025

PM USHA (MERU) Project के अंतर्गत विक्रम विश्वविद्यालय के विभिन्न अ.शा./संस्थानों/लेब आदि हेतु Photocopier Machine Large and Multifunctional printers क्रय किए जाने हेतु पंजीकृत निर्माता फर्म/अधिकृत विक्रेताओं से www.mptenders.gov.in के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा को का विसूत विवरण विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की वेबसाइट www.vikramuniv.ac.in पर भी उपलब्ध है। निविदा का अनुमानित मूल्य लगभग राशि 4800000/- (रु. अड़तालीस लाख मात्र) है।

म.प्र. माध्यम/121531/2025 कुलसचिव

ANAND RATHI
Anand Rathi Global Finance Limited :
Express Zone, A Wing, 10th Floor, Western Express Highway,
Diagonally Opposite Oberoi Mall, Goregaon (E), Mumbai - 400 063 India

DEMAND NOTICE

Whereas the borrowers/co-borrowers hereunder have availed the financial assistance from Anand Rathi Global Finance Ltd. We state that despite having availed the financial assistance, the borrowers/co-borrowers have committed various defaults in repayment of interest and principal amounts as per due dates. The account has been classified as Non-Performing Asset on the respective dates mentioned hereunder in accordance with the directions/guidelines issued by Reserve Bank of India. The Authorised Officer of Anand Rathi Global Finance Ltd. under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 in exercise of power conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices on respective dates mentioned herein below under Section 13(2) of SARFAESI Act, 2002 calling upon the following borrowers/mortgagors to repay the amount mentioned in the notice together with further interest at the contractual rate on the amount mentioned in the notices and incidental expenses, cost, charges etc. until the date of payment within 60 days from the date of the notices.

Name Of The Borrower/ Co-borrower/s/ Address	Outstanding Amount: Rs. 73,99,089/-	Outstanding Amount: Rs. 10,32,580/-
(1) Mr. R K Mishra (Borrower) WZ - 36, Kharsa No. 64/22, Village Palam, Raj Nagar - II, Palam Colony, New Delhi - 110077, South West Delhi, New Delhi. (2) Mr. Vishal Mishra WZ - 36, Kharsa No. 64/22, Village Palam, Raj Nagar - II, Palam Colony, New Delhi - 110077, South West Delhi, New Delhi.	ROI 13.00% Principal Outstanding 70,19,415 EMI Amount Pending 3,32,786 Broken Period Interest 1,097 Over Due Interest 1,620	ROI 13.00% Principal Outstanding 10,12,156 EMI Amount Pending 1,375 Broken Period Interest 1,097 Over Due Interest 1,620
(3) Mrs. Alka Mishra WZ - 36, Kharsa No. 64/22, Village Palam, Raj Nagar - II, Palam Colony, New Delhi - 110077, South West Delhi, New Delhi.	Legal Charges 7,670 Notice Charges 1,100 EMI Balance Charges 3,000 Total Outstanding 73,99,089	Legal Charges 1,100 EMI Balance Charges 3,000 Total Outstanding 10,32,580

APPL0004145 | APPL00011448

Property Address: Property No. WZ - 36, Kharsa No. 64/22, Village Palam, Raj Nagar - II, Palam Colony, New Delhi - 110077, South West Delhi, New Delhi. East: Plot No. WZ-36A. West: Other's Plot. North: 17.5 ft wide Road.

NPA DATE : 03/09/2025 | LOAN AMOUNT : Rs. 75,00,000/- | DATE OF DEMAND NOTICE : 08.08.2025 | LOAN AMOUNT : Rs. 10,50,000/-

In the circumstances as aforesaid, the notice is hereby given to the above borrowers to pay the outstanding dues as mentioned above along with future interest and applicable charges within 60 days from the date of the publication of this notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days from the date of this notice against the secured assets including taking possession of the secured assets of the borrowers and the mortgagors under Section 13(4) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and the applicable rules thereunder. In case you are desirous of making any representation in response to this notice, please mark the same to our Authorised Officers: Mr. Maheshwar Singh, Anand Rathi Global Finance Ltd. at 8th floor, "A" Wing, Express Zone Building, Western Express Highway Road, Goregaon (East), Mumbai-400063, only to enable us to respond in time. Please note that we shall not be responsible for not responding to any of your representations made in response to this notice if the same is addressed to any other person or place. Please note that under Section 13(3) of the said Act, no borrower shall, transfer by way of sale, lease or otherwise any of his secured assets referred to in the notice, without prior written consent of the secured creditor.

Date : 08.08.2025 | Place: New Delhi
Sd/-, Anand Rathi Global Finance Limited, Authorised Officer

PUBLIC NOTICE

Subject : 30 days' notice for transfer of property with respect to death of owner of property.

In reference to the subject cited above it is stated that details of PID -1C7GRNO under the ownership of Smt S C Maheshwari (full name Shri Sarup Chand Maheshwari) S/o Late Shri Mool Chand Maheshwari (Adhar no. 821503443699) having address House No. 490A/16, Barf Khana Old Abadi, Sohna Road, 122001 Gurugram Haryana in property tax record of property tax dues payment and no dues certificate management system, U.L.B. Haryana. Shri Sarup Chand Maheshwari has died on 03.07.2025. He had during his life time registered a will vide Will No. 380 dated 12.09.2023 in the office of Registrar/Sub-Registrar -Gurgaon Haryana. Shri Sudhir Kumar Maheshwari S/o Shri Sarup Chand Maheshwari R/o 490A/16 Gurdwara Road Civil Lines Gurgaon intends to apply for the transfer of the said property in his favor. It is hereby informed that if any legal heir has objections against the transfer of ownership the objectors(s) can submit the objection to the Municipal Corporation Gurugram in writing along with supporting documents within 30 days of the publication of this notice and if no objection is received within 30 days of the publication of this notice then the property will be transferred to the name of Sudhir Kumar Maheshwari S/o Shri Sarup Chand Maheshwari for which Municipal Corporation will not be responsible. Please be informed.

Sd/-
Sudhir Kumar Maheshwari

BAJAJ FINANCE LIMITED
Registered Office: Bajaj Finance Limited, Off Pune-Ahmednagar Road, Viman Nagar, Pune - 411014
Branch Offices: Bajaj Finance Ltd, Unit No 3a, 3rd Floor, Pawa Grand, Prashant Vihar, Sector 14, Rohini, Delhi-110085

Demand Notice Under Section 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

Undersigned being the Authorized Officer of M/s Bajaj Finance Limited, hereby gives the following notice to the Borrower(s) Co-Borrower(s) who have failed to discharge their liability i.e., defaulted in the repayment of principal as well as the interest and other charges accrued there on for Home Loan(s)/Loan(s) Against Property advanced to them by Bajaj Finance Limited and as consequence the loan(s) have become Non Performing Assets (N.P.A's). Accordingly, notices were issued to them under section 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and rules there on to their last known addresses, however the same have been returned un-served/delivered, as such the Borrower(s)/Co-Borrower(s) are hereby intimated/informed by way of this publication notice to clear their outstanding dues under the loan facilities availed by them from time to time.

Loan Account No./Name of the Borrower(s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s)	Description of Secured Immovable Property	Demand Notice Date & Amount
4010148885152 & 401FHL48881691 Anju Sharma (Borrower) Krihan Kumar Sharma (Co-Borrower) Both At - 118 A Platinum Enclave Sector-18 Rohini, Delhi, Pin Code - 110085	Free Hold Back Portion of Ground Floor, Without Roof Rights of Built-up Property Bearing No. 60, Area Measuring 99.00 Sq. Mtrs Approx. In Block No. N, Pocket No.-3, Sector No.-18, Situated In The Layout Plan of Rohini Residential Scheme, Rohini, New Delhi - 110085, along With The Proportionate Free Hold Rights of The Land Under The Said Property Which is Bounded As- East-remaining Portion, West -property Bearing No.74, North-road, South-plot Bearing No.-61.	14/07/2025 Rs. 90,19,245.45/- (Rupees Ninety Lakh Nineteen Thousand Two Hundred and forty-five and Forty-Five Paise Only) as on 14/07/25

This step is being taken for substituted service of notice. The above Borrowers / Co-Borrowers, Guarantors are advised to make the payments of outstanding along with future interest within 60 days from the date of publication of this notice, failing which (without prejudice to any other right remedy available with Bajaj Finance Limited) further steps for taking possession of the Secured Assets / Mortgage Property will be initiated as per provisions of Sec.13(4) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. The parties named above are also advised not to alienate, create third party interest in the above-mentioned properties. On which Bajaj Finance Limited has the charge.

Date: 12.08.25 Place: DELHI
Sd/- Authorized Officer Bajaj Finance Limited

SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD.
Registered Office : 501, Salcon Aarum, Jasola District Centre, New Delhi - 110025 CIN : U65900DL2002PLC366027

DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002

Notice is hereby given that the following borrower/Co-Borrowers, who have availed loan facilities from SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD. having its Head office at 3rd Floor, ADD India Tower, Sector 125, Noida - 201303, have failed to service the interest of their credit facilities to SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD. and that their loan accounts has been classified as NPA as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. The Borrowers have provided security of the immovable properties to SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD., the details of which are described herein below. The details of the loan and the amounts outstanding and payable by the borrowers to SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD. as on date are mentioned below.

The borrower (Co-Borrowers as well as the public in general are hereby informed that the undersigned being the Authorized Officer of SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD., the secured creditor has initiated action against the following borrower (Co-Borrowers under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and enforcement of Security Interest Act, 2002 (the SARFAESI Act). If the following borrowers fail to repay the outstanding dues indicated against their names within 60 (Sixty) days of this notice, the undersigned will exercise any one or more of the powers conferred on the Secured Creditor under sub-section (2) of Section 13 of the SARFAESI Act, including power to take possession of the properties and sell the same. The public in general is advised not to deal with property described here below.

Name of the Borrowers / Guarantor & Mortgagor	Description of Secured Assets/ Property
M/s Real Buy 15 Through its Proprietor Mr. Pankaj Sharma (Borrower) Mr. Pankaj Sharma S/o Mr. Hardutt Sharma (Proprietor) Also At R/o C 60 Anand Vihar 3rd floor, New Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh 201001, Mr. Hardutt Sharma S/o Mr. Pyarelal Sharma (Proprietor/Mortgagor), Mrs. Tanu Sharma W/o Mr. Pankaj Sharma (Guarantor) Also At R/o H. No. C 60, Nehru Nagar 3rd Floor, F Block Ghaziabad Uttar Pradesh 201001, Mr. Shiv Kumar Sharma S/o Mr. Pyarelal Sharma (Guarantor) R/o H.No. 186, New Panchwati Colony Nagar, Ghaziabad Uttar Pradesh 201001	Equitable Mortgage on the Property: Residential Plot, measuring an area of 147.11 Sq. Yards in a 122.99 Sq. Mtrs. Situated at Plot No. 3, Part of Kharsa No. 99H, Village Chhaparuta Tehsil Dahi District Gaudh Budh Nagar Uttar Pradesh, Registered in revenue records of Bahi No. 1, Jild No.-7090, Page No.247-272 Serial No. 13982 Dated 17-07-2014. In the name of Mr. Hardutt Sharma. Bound by: North: Other Plot, South: Other Plot, West: Other Plot, East: Road 20 ft wide

Loan Account No., Demand Notice Date and Amount
Loan Account No. 101541005601 Demand Notice Date: 08-08-2025
Outstanding Amount: Rs.2,60,000/- (Rupees Two Lakhs Sixty Thousand Only) as on 07-08-2025
NPA Date : 06-07-2025

Date: 08-08-2025 Place: NOIDA
Authorized Officer, Shivalik Small Finance Bank Ltd

ASSETS CARE & RECONSTRUCTION ENTERPRISE LTD.
Corporate Office : Unit No. 502, C Wing, ONE BKC, Plot No. C - 66, G - Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400051. Tel : 022 68643101.
Registered Office : 14th Floor, EROS Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi - 110019.
E-mail : accr.acre@acreinia.in | Website : www.acreinia.in | CIN : U65993DL2002PLC115769

Notice under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The Act)

Sr. No.	Name of Borrower(s) (A)	Particulars of Mortgaged property / properties (B)	Date Of NPA (C)	Outstanding amount (Rs.) (D)
1.	Loan Account No. N0050XII (EARLIER LAN 00001140 OF DHFL AND LAN S800004946 / HDHLO100488361 OF SCL FORMERLY KNOWN AS IHFL) 1. NAIM AHMED 2. FATIMA ZARA	C - 164, 3RD FLOOR, GALI NO. - 1317, KHARSNA NO. - 689/442, ULDHAN PUR, KANTI NAGAR EXTENSION, SAHADARA, DELHI - 110051.	30.06.2021	Rs. 26,82,450.80/- (Rupees Twenty Six Lakh Eighty Two Thousand Four Hundred Fifty and Paise Eighty Only) as on 17.07.2025

That the above named borrower(s) have failed to maintain the financial discipline towards their loan account (s) and as per books of accounts maintained in the ordinary course of business by the Company, Column D indicates the outstanding amount.

Due to persistent default in repayment of the Loan account on the part of the Borrower(s) the above said loan account has been classified as NPA by the Company as Non Performing Asset (as on date in Column C) within the guidelines relating to assets classification issued by Regulatory Authority. Consequently, notices under Sec. 13(2) of the Act were also issued to each of the borrower.

In view of the above, the Company hereby calls upon the above named Borrower(s) to discharge in full his/her liabilities towards the Company by making the payment of the entire outstanding dues indicated in Column D above including up to date interest, costs, and charges within 60 days from the date of publication of this notice, failing which, the Company shall be entitled to take possession of the Mortgaged Property mentioned in Column B above and shall also take such other actions as is available to the Company in law.

Please note that in terms of provisions of sub-Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, "A borrower can tender the entire amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Secured Creditor only till the date of publication of the notice for sale of the secured asset(s) by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty. Further it may also be noted that in case Borrower fails to redeem the secured asset within aforesaid legally prescribed time frame, Borrower may not be entitled to redeem the property."

In terms of provision of sub-Section (13) of Section 13 of the SARFAESI Act, you are hereby prohibited from transferring, either by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of his business) any of the secured assets referred to in the notice, without prior written consent of secured creditor.

*For any grievances you may contact Mr. Mohd Sharif Malik, Grievance Redressal Officer, Phone No. 011-66115609, E-mail : complaint@acreinia.in. The detailed policy on Grievance Redressal Mechanism within the organisation can be accessed at <https://www.acreinia.in/compliance/>

For Assets Care and Reconstruction Enterprise Ltd.
Acting in its capacity as Trustee of ACRE 102 Trust
Authorized Officer

Place : DELHI

AXIS BANK
Retail Asset Centre: Axis Bank Ltd. Gigaplex, NPC-1, 3rd Floor MIDC, Airoli Knowledge Park Mugulgan Road Airoli Navi Mumbai-400708
Also at: Axis Bank Ltd., Axis House, Tower T-2, 2nd Floor, I-14, Sector-128, Noida Expressway, Jaypee Greens Vistara, Noida (U.P.)-201301, Corporate Office: Axis House, Block-B, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai-400025

Registered Office: Trishul, 3rd floor, opposite Samartheshwar Temple, Law garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006.

POSSESSION NOTICE UNDER SARFAESI ACT 2002

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of Axis Bank Ltd. under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (2) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notice upon the Borrower(s) Co-Borrower(s) Guarantor(s) / Mortgagee(s) mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower(s) Co-Borrower(s) Guarantor(s) / Mortgagee(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) Co-Borrower(s) Guarantor(s) / Mortgagee(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The Borrower(s) Co-Borrower(s) Guarantor(s) / Mortgagee(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Axis Bank Ltd. The Borrower(s) Co-Borrower(s) Guarantor(s) / Mortgagee(s) attentions is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of Borrower / Co-borrower - M/s Vikas Stone Cr Co Proprietor- Ship Concern Indri Zone Indri Zone Nuh Mevt Haryana Gurgaon 122103. Through Its Proprietor Mr. Rakesh Vijay. Also At M/s Vikas Stone Cr Co Proprietorship Con-cem 308, Holi Chowk Goman Hari South West Delhi, Delhi-110073 Through Its Proprietor Mr. Rakesh Vijay. 2. Mr. Rakesh Vijay S/o Hukum Chand Proprietor M/s Vikas Stone Cr Co 308, Holi Chowk Goman Hari South West Delhi, Delhi-110073 Also At Mr. Rakesh Vijay S/o Hukum Chand, Proprietor M/s Vikas Stone Cr Co, Indri Zone Indri Zone, Nuh Mevt, Haryana, Gurgaon-122103

Description of Property: All That Piece And Parcel Of Land / Industrial Property Is Situated At Waka Moja Indri, Tehsil Nuh, Haryana Comprising Of Khatwakhata No. 1471/1526, Mustali No. 172, Kila No. 8/1 And Khatwakhata No. 1783/1854 Mustali No. 172, Kila No. 7/2 'Admeasuring 9 Kanal 9 Marla. Bounded As Under In The Name Of Rakesh Vijay S/o Hukum Chand East - As Per Sale Deed West - As Per Sale Deed South - As Per Sale Deed North - As Per Sale Deed Five Paisa) The Above-mentioned Borrower(s) Co-

Date of Demand Notice	Date of Possession	Amount in Demand Notice (Rs.)
11-Dec-2024	07-Aug-2025	Rs. 1,03,01,580.75/- (Rupees One crore Three Lakh One Thousand Five Hundred Eighty and Seventy Five Paisa Only)

The above-mentioned Borrower(s) Co-Borrower(s) Guarantor(s) / Mortgagee(s) are hereby given a 30 days' Notice to repay the amount, also the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days' from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002. Place : Noida, Date: 12.08.2025
Sd/- Authorized Officer, Axis Bank Ltd.

Karnataka Bank Ltd.
Your Family Bank. Across India.

Asset Recovery Management Branch
8-B, First Floor, Rajendra Park,
Pusa Road,
New Delhi-110 060

Phone : 011-40591567(Ext-240)
E-Mail : delhiarm@ktbank.com
Website : www.karnatakabank.com
CIN : L85110KA1924PLC001128

APPENDIX IV (Rule 8(1))
POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, undersigned being the Authorised Officer of KARNATAKA BANK LIMITED, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002(54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with [rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 06.03.2025 calling upon the borrower/ mortgagor/ guarantors (1) Mr. Kapil Sharma S/o Mr. Vinod Sharma, Residing at: Flat No.1007, Block F, 10th Floor, Sector 61, Max Heights Dream Homes, Nangal Kalan, Kundli, Sonapat 131028, Haryana, (2) Mr. Vinod Sharma S/o Mr. K C Sharma, Residing at, 46 Gharonda Apartment, Srestha Vihar, Shakurpur Baramand, East Delhi, Delhi- 110092, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.10,25,837.84 (Rupees Ten Lakhs Twenty Five Thousand Eight Hundred Thirty Seven and Paise Eighty Four Only) Under Overdraft & Cash Credits Account No. 3907000100000201 along with future interest from 01.03.2025, within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers, mortgagors and the guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers, mortgagors, guarantors and the public in general that the undersigned has taken the Possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 and 9 of the Security Interest Enforcement, Rules 2002 on the 8th Day of August of year 2025.

The borrowers, the mortgagors and the guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property mentioned herein below and any dealings with the property will be subject to the charge of Karnataka Bank Limited, Kundli Branch for an amount of Rs.10,76,204.84 (Rupees Ten Lakhs Seventy Six Thousand Two Hundred Four and Paise Eighty Four Only) Under Overdraft & Cash Credits Account No. 3907000100000201 along with future interest from 01.08.2025, plus costs.

[The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.]

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that Part and Parcel of Residential Flat Building on 10th Floor measuring 424.35 Sqft situated on plot / floor No. F-1007, Sector-61, Max Height Dream Homes, Nangal Kalan, Kundli, Tehsil- Rai, Dist- Sonapat, Haryana, belonging to Mr. Kapil Sharma. Boundaries: East: Flat No. F-1008 West: Lift & Open Space North : open Below (Park & Passage) South : Passage Common

Place : Kundli
Date : 08.08.2025

Sd/- For Karnataka Bank Ltd
Chief Manager & Authorised Officer

POSSESSION NOTICE
(for immovable property)

Whereas,

The undersigned being the Authorized Officer of SAMMAAN CAPITAL LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) (formerly known as INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 16.12.2024 calling upon the Borrower(s) S. M. ZAINUDDIN PROPRIETOR M/S MUNNA BABU BARTAN BHANDAR and FARHA UROOS to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 22,45,505.06 (Rupees Twenty Two Lakhs Forty Five Thousand Five Hundred Five And Paise Six Only) against Loan Account No. HHLAL00392989 as on 16.12.2024 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 07.08.2025.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of SAMMAAN CAPITAL LIMITED (formerly known as INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED) for an amount of Rs. 22,45,505.06 (Rupees Twenty Two Lakhs Forty Five Thousand Five Hundred Five And Paise Six Only) as on 16.12.2024 and interest thereon

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

FLAT No. 402, ADMEASURING AREA 98.97 SQ. MTRS., ON THE FOURTH FLOOR, IN 'PAHASU APARTMENT', PAHASU HOUSE, TEHSIL KAUL, DISTRICT ALIGHRH, KACHERI ROAD, NEAR TASVIR MAHAL, ALIGARH-202001, UTTAR PRADESH, ALONGWITH UNDIVIDED SHARE OF 30.28 SQ. MTRS. IN THE SAID COMPLEX.

BOUNDED BY :-
EAST : BALCONY AND WAY TO GROUND FLOOR
WEST : FLAT No. 403
NORTH : FLAT No. 401 AND COMMON PASSAGE 9 FEET WIDE
SOUTH : BALCONY AND WAY TO PARKING AT GROUND FLOOR

Date : 07.08.2025
Place : ALIGARH
Authorized Officer
SAMMAAN CAPITAL LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED)

Dynamic Portfolio Management & Services Limited
CIN: L74140DL1994PLC304881
Registered Office : 1403, Vikram Tower 16, Rajendra Place, New Delhi - 110008
Website: <http://dynamicwealthservices.co.in> | Phone: 9017255300, Email: dpmc.kolkata@gmail.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH, JUNE, 2025


Sl. No.	Particulars	FOR THE QUARTER ENDED As On 30.06.2025		Corresponding 3 Months ended in the previous Year as on 30.06.2024	
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations (net)	24.24	18.33	78.30	
2	Net Profit / (Loss) For the period before tax (before Extraordinary items)	15.51	5.74	16.78	
3	Net Profit / (Loss) For the period before tax (after Extraordinary items)	15.51	5.74	16.78	
4	Net Profit / (Loss) For the period after tax (after Extraordinary items)	11.62	5.74	12.33	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	11.62	5.74	12.33	
6	Equity share capital @ Rs. 10/- each	1,161.29	1,161.29	1,161.29	
7	Reserve (excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year)	-	-	-	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10 each)				
	Basic :	0.10	0.05	0.11	
	Diluted :	0.10	0.05	0.11	

Notes:

- The above quarterly results have been approved by the audit committee and approved by the Board of Directors in its board meeting held on 11th August, 2025 and the same is filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com and on the Company's website i.e. www.dynamicwealthservices.co.in
- The above financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016 and accordingly, these financial results together with the accounts for the comparative reporting period have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" ("Ind AS 34"), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), and other recognized accounting practices generally accepted in India and in compliance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "Listing Regulations"). Any application guidance / clarifications / directions issued by the Reserve Bank of India or other regulators are implemented as and when they are issued / applicable.
- In compliance with Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a limited review of financial results for the quarter ended 30th June 2025 has been carried out by the Statutory Auditors.
- The Company is in the business of NBFC and as such there are no separate reportable segments as per Indian Accounting Standard "Operating Segments" ("Ind AS 108") and thus, segment reporting under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is not applicable. Hence, information relating to primary segment (including segment revenue, segment results, segment assets and segment liabilities) are not required to be disclosed.
- Previous period / year figures have been regrouped / reclassified, wherever found necessary, to conform to current period / year classification.

For and on behalf of the Board of Directors
Dynamic Portfolio Management & Services Limited
Sd/-
Rajesh Gupta
Managing Director
DIN- 00025324

Place : New Delhi
Date : 11.08.2025



संक्षेप में

टेस्ला करेगी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार

अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी टेस्ला दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और बैंगलूरु में अपने सुपर चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बना रही है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। कंपनी की योजना सितंबर तक भारत में आपूर्ति शुरू करने की है। टेस्ला की क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण पूर्व एशिया) इसाबेल फैन ने राष्ट्रीय राजधानी के एरोसिटी में भारत के अपने दूसरे अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कंपनी गुरुग्राम और नोएडा के अलावा साकेत में भी एक और सुपरचार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना बना रही है।

ग्रास.एआई ने जुटाए 90 लाख डॉलर

ई-कॉमर्स कारोबारों के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) पर आधारित एनालिटिक्स समाधान प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म ग्रास.एआई ने सोमवार को ऐलान किया कि उसने प्री-सीरीज बी फंडिंग वाले दौर में 90 डॉलर की रकम जुटाई है। रकम जुटाने के इस दौर का नेटवर्क टिन में कैपिटल ने किया, जिनमें इन्फ्रेड वेन्चर, ओजोन और मौजूदा निवेशकों इंस्ट्रा पार्टनर्स और युज वेंचर्स ने भाग लिया। कंपनी ने बयान में कहा कि वह इस निवेश का इस्तेमाल भारत में एजेंट फाउंड्री के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए करेगी।

निजी 5जी नेटवर्क को सीधे स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले में दूरसंचार विभाग का प्रस्ताव

दूरसंचार फर्मों ने किया विरोध

गुलबीन ओलख नई दिल्ली, 11 अगस्त भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) के उस प्रस्ताव का विरोध किया है, जिसमें निजी 5जी नेटवर्क के लिए सीधे आवंटन के माध्यम से स्पेक्ट्रम देने की बात कही गई है। उनका कहना है कि ऐसा कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदायक होगा और इससे राजस्व की क्षति होगी, जो अन्यथा ऐसे स्पेक्ट्रम की नीलामी से हासिल होता।



इस मामले पर अपनी राय दोहराते हुए तर्क दिया गया है कि निजी 5जी नेटवर्क की स्वतंत्र रूप से तैनाती कंपनियों के लिए महंगी होगी क्योंकि उन्हें उपकरण, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, सुरक्षा, नेटवर्क रखरखाव और कुशल कर्मियों पर अहम पूंजीगत खर्च करना होगा। इसके अलावा प्रौद्योगिकी के नियमित-उन्नयन के लिए भी निवेश की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट गैर-सार्वजनिक 5जी नेटवर्क, (जिन्हें सीएनपीएन कहा जाता है) को लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार ऑपरेटरों के माध्यम से केवल स्पेक्ट्रम लीजिंग या

पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि स्पेक्ट्रम की राष्ट्रीय नीलामी से अकेले 2022 में 1.5 लाख करोड़ रुपये की कमाई हुई थी। इसमें कहा गया है कि सरकार के इस तरह के कदम से दूरसंचार कंपनियों और निजी संस्थाओं के बीच असमान प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा होगा, जो बिना किसी तुलनायोग्य विनियामक या वित्तीय दायित्वों के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाती हैं।

सीओएआई ने तर्क दिया, बिना लाइसेंस वाली या विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रबंधित निजी नेटवर्क राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं क्योंकि ये कंपनियां टीएसपी की तरह अनुपालन, इंटरसेप्शन और नियामक दायित्वों से बंधी नहीं होतीं। उन्होंने यह भी कहा कि स्पष्ट नियामक ढांचे के बिना दुरुपयोग, उल्लंघन या हमले की स्थिति में कोई जवाबदेही नहीं होगी। इससे सरकार की वैध इंटरसेप्शन, इस्तेमाल करने वालों का पता लगाने और आपातकालीन प्रतिक्रिया समन्वय सुनिश्चित करने की क्षमता में भी बाधा आ सकती है। जिससे देश को साइबर सुरक्षा, निगरानी और राजनयिक जोखिमों के लिए खुला छोड़ दिया जा सकता है।

एफएमसीजी फर्मों का विज्ञापन खर्च सीमित

शार्लीन डिसूजा मुंबई, 11 अगस्त

अप्रैल-जून तिमाही के दौरान एफएमसीजी कंपनियों ने अपने खर्च की रफतार सीमित रखी और विज्ञापनों पर कोई फिजूलखर्ची नहीं की। लेकिन कंपनियां आगामी महीनों में विज्ञापनों को खर्च फिर शुरू करेंगी, जैसा कि उन्होंने अपनी अर्निंग कॉल्स में निवेशकों को बताया है। पिछले वर्ष की तुलना में कई एफएमसीजी कंपनियों ने इस तिमाही में कच्चे माल की ऊंची लागत के कारण मार्जिन में गिरावट रोकने पर ध्यान केंद्रित किया। कंपनियों ने विश्लेषकों को भेजी जानकारी में भी यही कहा है कि इस तिमाही में विज्ञापन पर खर्च कम रहा। डाबर इंडिया ने व्यापार योजनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और मीडिया संबंधित खर्च पर कम जोर दिया। मगर कंपनी का मानना है कि भविष्य में उसका विज्ञापन खर्च बढ़ेगा। डाबर इंडिया में मुख्य कार्याधिकारी मोहित इंडिया ने नतीजों की घोषणा के बाद विश्लेषकों को बताया, 'हमने पूंजी को एटीएल (एकव द लाइन) से बीटीएल (बिलो द लाइन) में कर दिया है। मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि प्रतिस्पर्धा की तीव्रता के आधार पर ट्रेड इनपुट, उप-भोक्ता योजनाएं और व्यापार योजनाएं दी जाती हैं।' उन्होंने कहा, 'लेकिन आगे चलकर, विज्ञापन पर खर्च अधिक होना रहेगा। हम अपना सकल मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं और एडवर्टाइजिंग सपोर्ट में निवेश करना चाहते हैं। हम आगे चलकर समग्र विज्ञापन और प्रचार व्यय बढ़ाने का निरंतर प्रयास करेंगे। ब्रांड तथा वितरण में भी निवेश करेंगे।' गुड डे बिस्कुट की निर्माता ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने निवेशकों को बताया कि उसने जून तिमाही में अपने विज्ञापन खर्च को अनुकूल बनाया। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी वरुण बेरी ने विश्लेषकों को बताया, 'हमने तिमाही के दौरान अपने एजेंटपी (विज्ञापन एवं प्रोत्साहन) खर्च को तर्कसंगत बनाया।' अप्रैल-जून तिमाही में बिक्री के प्रतिशत के रूप में मैरिको का विज्ञापन खर्च काफी हद तक स्थिर रहा। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी पवन अग्रवाल ने कहा, 'भारत में विज्ञापन और आपूर्ति में कुछ कटौती हुई है। लेकिन मैं आपको इसके दो-तीन टैकेट कारण बता दूँ। पहला, हमने प्रीमियम, वीएफएओ (मूल्य वर्धित हेयर ऑयल), खाद्य पदार्थ और पीपीसी (प्रीमियम पर्सनल केयर) जैसी प्रमुख श्रेणियों में कोई कटौती नहीं की है।'

HINDUJA HOUSING FINANCE
हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
 कार्यालय: कलकत्ता संपन्न-286, फ्लैट-1, इंदिरा ब्लॉक, सेक्टर-25, लोकनगर पी के एच, राँची, नई दिल्ली-110085
 ईमेल: auction@hindujahousingfinance.com

अवल संपत्ति के भौतिक कच्चे की सार्वजनिक सूचना

को, 1. श्रीमती श्वेता मिश्रा (उपकारकर्ता), 2. श्री गुरुन मिश्रा (सह-उपकारकर्ता), 3. श्रीमती निर्मला (सह-उपकारकर्ता)

सभी का पता: बी-4/210ए, केवड पुरम, दिल्ली - 110035
 लिन सं: DL/NG/LMEBH/A00000340 और CO/CP/CP/FA/00000371

जबकि सुश्री सुमित्रा कौर, मुख्य वित्तीय अधिकारी, उत्तर-पश्चिम, राँची, जिला, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 02-07-2025 के आदेश के अनुसार, संपत्ति डिपॉजिट, एलआईसी ब्लॉक संपन्न 51, पूरुम, केवड 32 वन रोड, ब्लॉक-सी-3, लॉकर्स रोड, आर्यावती भोजना, लॉकर्स रोड, केवड पुरम, बी. गोल्ले मुला लिमिटेड के पता, नई दिल्ली - 110035 की संपत्ति का भौतिक कच्चा 05.08.2025 को भौतिक हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा अधिलेखित किया गया है।

विशेष रूप से उपरोक्त संपत्ति और सामान्य रूप से जनता को संपत्ति दी जाती है कि वे संपत्ति का सीधा न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन नहो। हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधीन होगा।

प्रतिक्रियाकर्ता
दिनांक: 12.08.2025, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
स्थान: दिल्ली

Nav Sansad Vihar Co-operative Group Housing Society Ltd.
Plot No. 4 Sector 22 Dwarka New Delhi
E Mail: navsansad@gmail.com
 Ref No. NSV/NSV/25-26/Misc Date:10/08/2025

सार्वजनिक सूचना

इस नोटिस के माध्यम से श्रीमती निर्मला भारती शर्मा, श्री प्रमन कुमार शर्मा तथा के आर शर्मा सदस्यता संख्या 760, नव संसद विहार सहकारी सामूहिक आवास समिति लिमिटेड के अर्द्ध सदस्य का ध्यान आवासीय की प्रकल्प समिति द्वारा भेजे गये तीन नोटिस की ओर दिखाना जाता है जिसमें उनसे फर्जी / गलत दस्तावेजों के जरिए सोसाइटी की दोहरी सदस्यता हासिल करने पर शीटीएस एक 2003 संख्या 86(1) (इ), 87(5)(एम), 91 शीटीएस रूकल डीसीएस रूकल 19 1 (एम), 20(1) (न) (प) तथा 99 के तहत सफाई मींगी गई थी. निम्नलिखित बयानों पर श्री सोसाइटी ऑफिस को कोई संतोषक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है. इसलिए संपत्ति की प्रकल्प समिति ने अपनी वेबक दिनांक 10 / 08 / 2025 शीटीएस एक और शीटीएस रूकल के निर्माण के मुताबिक कार्यावली करते हुए श्री श्रीमती निर्मला भारती शर्मा, श्री प्रमन कुमार शर्मा एवं तथा के आर शर्मा को सोसाइटी की सदस्यता से निष्काशित कर दिया है और मामले को आगे की कार्यावली के लिए पंजीकृत सहकारी सामूहिक आवास समिति के कार्यालय को भेज दिया है. श्री नोटिस के माध्यम से श्री श्रीमती निर्मला भारती शर्मा, श्री प्रमन कुमार शर्मा एवं तथा के आर शर्मा को सूचित किया जाता है की वह स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के जरिए पंजीकृत सहकारी सामूहिक आवास समिति द्वारा उस मामले पर आपत्ति वाली तारीख पर पंजीकृत सहकारी सामूहिक आवास समिति के कार्यालय में उपस्थित रहें. नव संसद विहार सी जी एच एस लिमिटेड सचिव

India Shelter Home Loans
 इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: 15, सेक्टर-4-4, आर्यावती रोड, इंदिरा नगर-122002 इंदिरा नगर

सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा जनहित में सूचित किया जाता है कि इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("आईएसएफसीएल"), जिसकी अपनी फरौदावाह शाखा "बीपी-49, प्रथम तल, नीलम बाटा रोड, एनआईडी फरीदाबाद-121001," पर है, दिनांक 12. 11. 2025 से बंद की जा रही है और उसके बाद हम फरौदावाह में अपनी अन्य शाखा आ संचालन करेंगे ताकि बेहतर स्थान और अधिक ग्राहक संबंध प्राप्त किया जा सके। हालांकि, हम आपको आश्चर्य करते हैं कि इसका आपकी खाता सेवा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और किसी भी ऋण खाता से संबंधित प्रश्न के लिए, आप हमारे टोल फ्री नंबर 18005728888 पर संपर्क कर सकते हैं। आगे, हमने श्री अनिल कुमार को स्थानीय सेवा प्रदाता के रूप में नामित किया है। इनसे इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शाखा फरीदाबाद- 9990138483 पर संपर्क किया जा सकता है। हम आश्चर्य नहीं करते हैं कि आपको हमेशा बेहतर निर्यात प्रदान करने की जाएगी। किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया ऊपर दिए गए संपर्क नंबर पर हमारे आईएसएफसीएल शाखा से संपर्क करने में संकोच न करें। प्रति और आरएसएफसीएल की ओर से दिनांक: 12.08.2025

एनएमडीसी लिमिटेड
 (भारत सरकार का उपक्रम)
 "संजिव भवन", 10-3-311/ए, कालिदास, मायाम टैंक, हैदराबाद-500 028
 CIN : L131007G1958G01001674

अनुबंध विभाग

दिनांक : 12.08.2025

एनएमडीसी लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक "नवरत्न" सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी डीपीएमआई कॉम्प्लेक्स, कर्नाटक में एक नए 7 एमटीपीए लोह अयस्क स्मॉलिंग और बेनिफिशिएशन प्लांट-II (एएपी-II) के लिए टर्नकी आधार पर टेलिसर डैम-II (डीसी-II) के डिजाइन, इंजीनियरिंग, उपकरण/सामग्री की आपूर्ति, मंडारण, साइट पर हैंडलिंग, निर्माण, संस्थापन, परीक्षण और कमीशनिंग कार्य के लिए 14.08.2025, 1100 बजे निविदा-पूर्व बैठक में भाग लेने के लिए अनुमोदी, प्रतिष्ठित और सक्षम पर्यटन निविदादाताओं को आमंत्रित करती है। निविदा-पूर्व बैठक का स्थान: एएनएन दस्तूर कार्यालय, कोलकाता। बैठक का संक्षिप्त एजेंडा, कार्य का प्रारंभिक दायरा, समय-सारणी, परिचयात्मक स्थल आदि जैसे विवरण प्राप्त करने के लिए, निविदादाता एनएमडीसी की वेबसाइट <http://www.nmdc.co.in> को देख सकते हैं। इसके अलावा, किसी भी पूछताछ के लिए निविदादाता निम्नलिखित अधिकारियों से सीधे या ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं: 1. श्री अनिरुध्न बिस्वास, ईमेल: Aniruban.B@dstatur.com 2. श्री अनिरुध्न चटर्जी, एजीएम (अनुबंध), ईमेल: arindam210990@nmdc.co.in

OSBI
 टांजेयन बैंकिंग - सोल्यूशंस और विशेष परियोजना विभाग
 कॉन्फिडेंट सेंटर, दूसरी मंजिल, मंगलाल नंदन, नर्मन पॉइंट, मुंबई-400021
 ई-मेल: dgmdebitcards.dtb@osbi.co.in, वेबसाइट: <https://bank.sbi/>, <https://www.sbi.co.in>

निविदा आमंत्रण सूचना

आरएफपी नं. TB S&SP/CARDS/ASK/2025-26/01 दिनांक: 07.08.2025
 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कार्डों की खरीद, प्रसंस्करण और निजीकरण तथा संबंधित सेवाओं के लिए बिक्रेताओं के पैनललीकरण हेतु आरएफपी हेतु पात्र बोलौदाताओं से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं. विवरण के लिए, कृपया <https://bank.sbi/>, <https://www.sbi.co.in>, <https://etender.sbi/> पर प्रोत्सोधोपदेष्ट न्यूज देखें.
 आरएफपी के डाउनलोड का आरंभ: 13.08.2025 को 11:00 बजे से बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 15.09.2025 को 15:00 बजे तक
 उच महाप्रबंधक (कार्ड)
स्थान: मुंबई
दिनांक: 12.08.2025 टीबी-सोल्यूशंस और विशेष परियोजना विभाग

एनएमडीसी लिमिटेड की ओर से कार्यकारी निदेशक (वर्करी)

फार्म सं. आईएनसी-26 (कंपनी) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार (मैं) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के खंड (ए) के अधीन (मैं)

ईडीजेनेल फैमस प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी") (सीआईएन: U51909UP2019PTC116368) जिसका पंजीकृत कार्यालय 164, जयपुर हाउस कोलोन, जयपुर हाउस, अगस्त-282010, उत्तर प्रदेश, भारत, के मामले में

एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने अपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कंपनी के मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव असाधारण आम बैठक में कंपनी को सक्षम करने हेतु **30 जुलाई 2025** को आयोजित बैठक में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को "उत्तर प्रदेश राज्य" से कर्नाटका राज्य में बदलने हेतु पारित किया गया।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियों निवेशक शिफारस प्राप्त मकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक शिफारस प्राप्त मकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, द्वितीय फ्लोर, पी. दीनदयाल अन्वोदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 के पते पर इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर प्रेषित कथा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को इसके नीचे लिखे पते पर स्वतंत्र पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए:

पंजीकृत कार्यालय: ईडीजेनेल फैमस प्राइवेट लिमिटेड, 164, जयपुर हाउस कोलोन, जयपुर हाउस, अगस्त-282010, उत्तर प्रदेश, भारत

कृते और उसकी ओर से ईडीजेनेल फैमस प्राइवेट लिमिटेड ("आवेदक") कृते और उसकी ओर से ईडीजेनेल फैमस प्राइवेट लिमिटेड ("आवेदक")

ईडीजेनेल फैमस प्राइवेट लिमिटेड ("आवेदक") कृते और उसकी ओर से ईडीजेनेल फैमस प्राइवेट लिमिटेड ("आवेदक")

दिनांक: 12.08.2025 स्थान: आगरा

सार्वजनिक सूचना

संदर्भ : संपत्ति के मालिक के निधन के संबंध में संपत्ति के स्थानांतरण के लिए 30 दिनों की सूचना उपरोक्त संपत्ति विषय के संबंध में यह कहा जाता है कि श्री एस सी महेश्वरी (पुरा नाम सरूप चंद महेश्वरी) पुत्र स्व. श्री मूल चंद महेश्वरी (आधार संख्या: 821503443369) जिसका पता: मकान सं. 490ए/16, बर्फ खाना पुरानी आबादी, सोनान रोड, 122001 मुद्रगांव, हरियाणा के स्थानांतरण में पीआईसी-1 सीजीएफआरएनओ का विवरण है, संपत्ति कर रिकार्ड में संपत्ति कर बकाया भुगतान और नो अदेयता प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली, सुपौलवी, हरियाणा, श्री सरूप चंद महेश्वरी को निधन 03.07.2025 को हुआ। उन्होंने अपने जीवनकाल के दौरान रजिस्ट्रार/ उप-रजिस्ट्रार-मुद्रगांव हरियाणा के कार्यालय में दिनांक 12.09.2023 की वारीसों सं. 380 द्वारा एक वसीयत का पंजीकरण कराया था। श्री सुधीर कुमार महेश्वरी पुत्र श्री सचिंद चंद महेश्वरी निवासी 490ए-16 मुद्रगांव रोड सिविल लाइसेंस प्रमाणपत्र उक्त संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर के लिए आवेदन करने का श्राव्य रखते हैं। एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि यदि किसी कानूनी वारीस को स्थायित्व के हस्ताक्षरों के खिलाफ आपत्ति है, तो आपत्तिकर्ता(ओं) को इस सूचना के 30 दिनों के भीतर लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करने के साथ समर्थित दस्तावेज सहित मुद्रगांव नगर निगम में जमा करनी चाहिए और यदि इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो संपत्ति का हस्तांतरण श्री सुधीर चंद महेश्वरी पुत्र श्री सरूप चंद महेश्वरी के नाम किया जाएगा, जिसके लिए नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया ध्यान दें।

हस्ता/ - सुधीर कुमार महेश्वरी

सार्वजनिक सूचना

संदर्भ : संपत्ति के मालिक के निधन के संबंध में संपत्ति के स्थानांतरण के लिए 30 दिनों की सूचना उपरोक्त संपत्ति विषय के संबंध में यह कहा जाता है कि श्री एस सी महेश्वरी (पुरा नाम सरूप चंद महेश्वरी) पुत्र स्व. श्री मूल चंद महेश्वरी (आधार संख्या: 821503443369) जिसका पता: मकान सं. 490ए/16, बर्फ खाना पुरानी आबादी, सोनान रोड, 122001 मुद्रगांव, हरियाणा के स्थानांतरण में पीआईसी-1 सीजीएफआरएनओ का विवरण है, संपत्ति कर रिकार्ड में संपत्ति कर बकाया भुगतान और नो अदेयता प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली, सुपौलवी, हरियाणा, श्री सरूप चंद महेश्वरी को निधन 03.07.2025 को हुआ। उन्होंने अपने जीवनकाल के दौरान रजिस्ट्रार/ उप-रजिस्ट्रार-मुद्रगांव हरियाणा के कार्यालय में दिनांक 12.09.2023 की वारीसों सं. 380 द्वारा एक वसीयत का पंजीकरण कराया था। श्री सुधीर कुमार महेश्वरी पुत्र श्री सचिंद चंद महेश्वरी निवासी 490ए-16 मुद्रगांव रोड सिविल लाइसेंस प्रमाणपत्र उक्त संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर के लिए आवेदन करने का श्राव्य रखते हैं। एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि यदि किसी कानूनी वारीस को स्थायित्व के हस्ताक्षरों के खिलाफ आपत्ति है, तो आपत्तिकर्ता(ओं) को इस सूचना के 30 दिनों के भीतर लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करने के साथ समर्थित दस्तावेज सहित मुद्रगांव नगर निगम में जमा करनी चाहिए और यदि इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो संपत्ति का हस्तांतरण श्री सुधीर चंद महेश्वरी पुत्र श्री सरूप चंद महेश्वरी के नाम किया जाएगा, जिसके लिए नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया ध्यान दें।

हस्ता/ - सुधीर कुमार महेश्वरी

एनएमडीसी लिमिटेड की ओर से कार्यकारी निदेशक (वर्करी)

फार्म सं. आईएनसी-26 (कंपनी) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार (मैं) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगम) नियम 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के खंड (ए) के अधीन (मैं)

ईडीजेनेल फैमस प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी") (सीआईएन: U51909UP2019PTC116368) जिसका पंजीकृत कार्यालय 164, जयपुर हाउस कोलोन, जयपुर हाउस, अगस्त-282010, उत्तर प्रदेश, भारत, के मामले में

एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने अपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कंपनी के मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव असाधारण आम बैठक में कंपनी को सक्षम करने हेतु **30 जुलाई 2025** को आयोजित बैठक में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को "उत्तर प्रदेश राज्य" से कर्नाटका राज्य में बदलने हेतु पारित किया गया।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियों निवेशक शिफारस प्राप्त मकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक शिफारस प्राप्त मकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, द्वितीय फ्लोर, पी. दीनदयाल अन्वोदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 के पते पर इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर प्रेषित कथा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को इसके नीचे लिखे पते पर स्वतंत्र पंजीकृत कार्यालय भेजी जानी चाहिए:

पंजीकृत कार्यालय: ईडीजेनेल फैमस प्राइवेट लिमिटेड, 164, जयपुर हाउस कोलोन, जयपुर हाउस, अगस्त-282010, उत्तर प्रदेश, भारत

कृते और उसकी ओर से ईडीजेनेल फैमस प्राइवेट लिमिटेड ("आवेदक") कृते और उसकी ओर से ईडीजेनेल फैमस प्राइवेट लिमिटेड ("आवेदक")

ईडीजेनेल फैमस प्राइवेट लिमिटेड ("आवेदक") कृते और उसकी ओर से ईडीजेनेल फैमस प्राइवेट लिमिटेड ("आवेदक")

दिनांक: 12.08.2025 स्थान: आगरा

सार्वजनिक सूचना

संदर्भ : संपत्ति के मालिक के निधन के संबंध में संपत्ति के स्थानांतरण के लिए 30 दिनों की सूचना उपरोक्त संपत्ति विषय के संबंध में यह कहा जाता है कि श्री एस सी महेश्वरी (पुरा नाम सरूप चंद महेश्वरी) पुत्र स्व. श्री मूल चंद महेश्वरी (आधार संख्या: 821503443369) जिसका पता: मकान सं. 490ए/16, बर्फ खाना पुरानी आबादी, सोनान रोड, 122001 मुद्रगांव, हरियाणा के स्थानांतरण में पीआईसी-1 सीजीएफआरएनओ का विवरण है, संपत्ति कर रिकार्ड में संपत्ति कर बकाया भुगतान और नो अदेयता प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली, सुपौलवी, हरियाणा, श्री सरूप चंद महेश्वरी को निधन 03.07.2025 को हुआ। उन्होंने अपने जीवनकाल के दौरान रजिस्ट्रार/ उप-रजिस्ट्रार-मुद्रगांव हरियाणा के कार्यालय में दिनांक 12.09.2023 की वारीसों सं. 380 द्वारा एक वसीयत का पंजीकरण कराया था। श्री सुधीर कुमार महेश्वरी पुत्र श्री सचिंद चंद महेश्वरी निवासी 490ए-16 मुद्रगांव रोड सिविल लाइसेंस प्रमाणपत्र उक्त संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर के लिए आवेदन करने का श्राव्य रखते हैं। एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि यदि किसी कानूनी वारीस को स्थायित्व के हस्ताक्षरों के खिलाफ आपत्ति है, तो आपत्तिकर्ता(ओं) को इस सूचना के 30 दिनों के भीतर लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करने के साथ समर्थित दस्तावेज सहित मुद्रगांव नगर निगम में जमा करनी चाहिए और यदि इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो संपत्ति का हस्तांतरण श्री सुधीर चंद महेश्वरी पुत्र श्री सरूप चंद महेश्वरी के नाम किया जाएगा, जिसके लिए नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया ध्यान दें।

हस्ता/ - सुधीर कुमार महेश्वरी

सार्वजनिक सूचना

संदर्भ : संपत्ति के मालिक के निधन के संबंध में संपत्ति के स्थानांतरण के लिए 30 दिनों की सूचना उपरोक्त संपत्ति विषय के संबंध में यह कहा जाता है कि श्री एस सी महेश्वरी (पुरा नाम सरूप चंद महेश्वरी) पुत्र स्व. श्री मूल चंद महेश्वरी (आधार संख्या: 821503443369) जिसका पता: मकान सं. 490ए/16, बर्फ खाना पुरानी आबादी, सोनान रोड, 122001 मुद्रगांव, हरियाणा के स्थानांतरण में पीआईसी-1 सीजीएफआरएनओ का विवरण है, संपत्ति कर रिकार्ड में संपत्ति कर बकाया भुगतान और नो अदेयता प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली, सुपौलवी, हरियाणा, श्री सरूप चंद महेश्वरी को निधन 03.07.2025 को हुआ। उन्होंने अपने जीवनकाल के दौरान रजिस्ट्रार/ उप-रजिस्ट्रार-मुद्रगांव हरियाणा के कार्यालय में दिनांक 12.09.2023 की वारीसों सं. 380 द्वारा एक वसीयत का पंजीकरण कराया था। श्री सुधीर कुमार महेश्वरी पुत्र श्री सचिंद चंद महेश्वरी निवासी 490ए-16 मुद्रगांव रोड सिविल लाइसेंस प्रमाणपत्र उक्त संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर के लिए आवेदन करने का श्राव्य रखते हैं। एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि यदि किसी कानूनी वारीस को स्थायित्व के हस्ताक्षरों के खिलाफ आपत्ति है, तो आपत्तिकर्ता(ओं) को इस सूचना के 30 दिनों के भीतर लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करने के साथ समर्थित दस्तावेज सहित मुद्रगांव नगर निगम में जमा करनी चाहिए और यदि इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो संपत्ति का हस्तांतरण श्री सुधीर चंद महेश्वरी पुत्र श्री सरूप चंद महेश्वरी के नाम किया जाएगा, जिसके लिए नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया ध्यान दें।

हस्ता/ - सुधीर कुमार महेश्वरी

सार्वजनिक सूचना

संदर्भ : संपत्ति के मालिक के निधन के संबंध में संपत्ति के स्थानांतरण के लिए 30 दिनों की सूचना उपरोक्त संपत्ति विषय के संबंध में यह कहा जाता है कि श्री एस सी महेश्वरी (पुरा नाम सरूप चंद महेश्वरी) पुत्र स्व. श्री मूल चंद महेश्वरी (आधार संख्या: 821503443369) जिसका पता: मकान सं. 490ए/16, बर्फ खाना पुरानी आबादी, सोनान रोड, 122001 मुद्रगांव, हरियाणा के स्थानांतरण में पीआईसी-1 सीजीएफआरएनओ का विवरण है, संपत्ति कर रिकार्ड में संपत्ति कर बकाया भुगतान और नो अदेयता प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली, सुपौलवी, हरियाणा, श्री सरूप चंद महेश्वरी को निधन 03.07.2025 को हुआ। उन्होंने अपने जीवनकाल के दौरान रजिस्ट्रार/ उप-रजिस्ट्रार-मुद्रगांव हरियाणा के कार्यालय में दिनांक 12.09.2023 की वारीसों सं. 380 द्वारा एक वसीयत का पंजीकरण कराया था। श्री सुधीर कुमार महेश्वरी पुत्र श्री सचिंद चंद महेश्वरी निवासी 490ए-16 मुद्रगांव रोड सिविल लाइसेंस प्रमाणपत्र उक्त संपत्ति को अपने नाम पर ट्रांसफर के लिए आवेदन करने का श्राव्य रखते हैं। एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि यदि किसी कानूनी वारीस को स्थायित्व के हस्ताक्षरों के खिलाफ आपत्ति है, तो आपत्तिकर्ता(ओं) को इस सूचना के 30 दिनों के भीतर लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करने के साथ समर्थित दस्तावेज सहित मुद्रगांव नगर निगम में जमा करनी चाहिए और यदि इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो संपत्ति का हस्तांतरण श्री सुधीर चंद महेश्वरी पुत्र श्री सरूप चंद महेश्वरी के नाम किया जाएगा, जिसके लिए नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया ध्यान दें।

हस्ता/ - सुधीर कुमार महेश्वरी

विनायक वाणिज्य लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: फ्लैट नं. 28, रिटलेंट पार्क, देविका टॉवर, 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
वेबसाइट: www.vinayakvniya.com, **फोन:** 9079738420, **ईमेल:** vniya@1985@gmail.com
सीआइएन: L52110DL1985PLC0210019

30 जून, 2025 के समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरिहित एकल वित्तीय परिणामों का सार (सेबी(एलओडीआर) विनियमवाली, 2015 का विनियम 47(1)(बी)) (संक्षिप्त रूप में)

विवरण	तिमाही समाप्त		वर्ष समाप्त	
	30.06.2024 (अलेखापरिहित)	31.03.2025 (लेखापरिहित)	30.06.2024 (अलेखापरिहित)	31.03.2025 (लेखापरिहित)